

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

भोपाल, बुधवार दिनांक 20 फरवरी 2019—फाल्गुन 1, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 फरवरी, 2019 (फाल्गुन 1, 1940)

विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

क्र. 2368-म. प्र. वि. स. 15-विधान-2019.—मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 126-छिंदवाड़ा से निर्वाचित सदस्य, श्री दीपक स्वसेना ने विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2019 से स्वीकृत किये जाने के कारण मध्यप्रदेश विधान सभा में उक्त एक स्थान रिक्त हो गया है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.